



भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35]
No. 35]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 1979/माघ 13, 1900
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 1979/MAGHA 13, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1979

सा० का० नि० 57 (अ).—केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1957 के खण्ड 3 के अनुसरण में इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट कीमत को प्रति टन ऐसी अधिकतम कीमत नियत करती है। जिम पर उस उर्वरक का, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त आदेश की अनुसूची 1 में ऐसे उर्वरक के लिए दी गई विशिष्टियों के अनुरूप है, चाय, काफी और रब बागानों या खेतिहरों को विक्रय किया जा सकेगा। यह कीमत तुरन्त प्रभावी होगी।

अनुसूची

उर्वरक	प्रति टन अधिकतम कीमत (केवल रुपयों में)
1	2
1. सुपरफास्फेट ट्रिपल (दलदल)	1640
2. डायमोनियम फास्फेट (18-46-0)	2210
3. अमोनियम फास्फेट (16-20-0)	1700
4. अमोनियम फास्फेट सल्फेट (20-20-0)	1845
5. नाइट्रो फास्फेट (20-20-0)	1760
6. पोटाश युक्त नाइट्रोफास्फेट (15-15-15)	1520
7. यूरिया अमोनियम फास्फेट (28-28-0)	2340
8. एन पी के (10-26-26)	1890
9. एन पी के (12-32-16)	2090

1	2
10. एन पी के (14-35-14)	2230
11. एन पी के (17-17-17)	1810
12. यूरिया अमोनियम फास्फेट (24-24-0)	1950
13. एन पी के (19-19-19)	2020
14. अमोनियम फास्फेट सल्फेट (18-9-0)	1320

स्पष्टीकरण—उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत में केन्द्रीय विक्रय कर, स्थानीय विक्रय कर या अन्य स्थानीय कर जहाँ कहीं भी वे उद्ग्रहणीय हैं और चाहे वे फुटकर विक्रय-स्थल पर या मध्यवर्ती किसी प्रक्रम में उद्ग्रहणीय हैं, सम्मिलित नहीं होंगे।

टिप्पणः—जब एक समय में 5 किलोग्राम से अधिक किसी उर्वरक का विक्रय किया जाए तो व्यावहारी ऊपर विनिर्दिष्ट आनुपातिक कीमत से प्रति किलो ग्राम एक पैसा अधिक ले सकता है।

[स० 10-2/79-एस० टी० यू०]
ए० जे० एस० सोही, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
(Department of Agriculture)

NOTIFICATION
New Delhi, the 2nd February, 1979

G S R. 57(E).—In pursuance of clause 3 of the Fertiliser (Control) Order, 1957, the Central Government hereby fixes, with immediate effect, the price specified in column (2) of the Schedule annexed hereto as the maximum price per tonne at which the fertiliser specified in the corresponding entry in column (1) of the said Schedule and conforming to the specifications for the same fertiliser given in Schedule 1 of the said Order, shall be sold to the tea, coffee and rubber plantations or to the cultivators.

SCHEDULE		1	2
Fertiliser	Maximum price per tonne (net) in Rupees		
1	2		
1. Superphosphate Triple (Granular)	1640	10. NPK (14-35-14)	2230
2. Diammonium Phosphate (18-46-0)	2210	11. NPK (17-17-17)	1810
3. Ammonium Phosphate Sulphate (16-20-0)	1700	12. Urea Ammonium Phosphate (24-24-0)	1950
4. Ammonium Phosphate Sulphate (20-20-0)	1845	13. NPK (19-19-19)	2020
5. Nitrophosphate (20-20-0)	1760	14. Ammonium Phosphate Sulphate (18-9-0)	1320
6. Nitrophosphate with Potash (15-15-15)	1520	<p>Explanation.—The maximum price specified above shall be exclusive of the Central Sales tax, local Sales-tax or other local taxes wherever levied, whether at the retail sale point or at the intermediate stage.</p> <p>Note:—when sales of any fertiliser are made in quantities not exceeding 5 Kilograms at a time, the dealer may charge one Paise per Kilogram in addition to the proportionate price specified above.</p> <p>[No. 10-2/79 S.T.U.]</p> <p>A.J.S. SODHI, Joint Secy.</p>	
7. Urea Ammonium Phosphate (28-28-0)	2340		
8. NPK (10-26-26)	1890		
9. NPK (12-32-16)	2090		